



अनुबंध 6 :अनुक्रमी वित्त आयोगों के माध्यम से कर अंतरण के लिए प्रयोग में लाए गए मानदंड और भारांक

वित्त आयोग	जनसंख्या	अंशदान	अविनिर्दिष्ट	पिछड़ापन	आय अंतर	विपरीत प्रति व्यक्ति आय	गरीबी	राजस्व समतुल्यता	योजनेतर घाटा	क्षेत्र	बुनियादी ढांचे का सूचकांक	राजकोषीय अनुशासन	कर प्रयास
पहला (1952-57) आय कर: 55 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 40 %	80.0 100.0	20.0											
दूसरा (1957-62) आय कर: 60 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 25 %	90.0 90.0	10.0	10.0										
तिसरा (1962-66) आय कर: 66.66 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 20 %	80.0	20.0	100.0										
चौथा (1966-69) आय कर: 75 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 20 %	80.0 80.0	20.0		20.0									
पांचवा (1969-74) आय कर: 75 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 20 %	90.0 80.0	10.0		6.66	13.34								
छठा (1974-79) आय कर: 80 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 20 %	90.0 75.0	10.0			25.0								
सातवां (1979-84) आय कर: 85 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 40 %	90.0 25.0	10.0				25.0	25.0	25.0					
आठवां(1984-89) आय कर: 85 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 45 %	22.5 25.0	10.0			45.0 50.0	22.5 25.0							
नौवां (1989-90) आय कर: 85 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 40 %	22.5 25.0	10.0			45.0 50.0	11.25 12.5	11.25 12.5						
दसवां (1990-95) आय कर: 85 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 45 %	22.5 25.0	10.0		11.25 12.5	45.0 33.5	11.25 12.5			16.5				
दसवां (1995-2000) आय कर: 77.5 % केंद्रीय उत्पाद शुल्क: 47.5 %	20.0 20.0				60.0 60.0					5.0 5.0	5.0 5.0	10 10	
ग्यारहवां (2000-05) सभी केंद्रीय कर: 29.5 %	10.0				62.5				7.5	7.5	5.0	7.5	
बारहवां (2005-10) सभी केंद्रीय कर: 30.5 %	25.0				50.0					10.0		7.5	7.5

स्रोत : बारहवां वित्त आयोग, 2005-10 की रिपोर्ट।

